



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042024-253815  
CG-DL-E-22042024-253815

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 2024/वैशाख 2, 1946

No. 238]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 22, 2024/VAISAKHA 2, 1946

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 252(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) ये नियम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2024 कहलाएंगे।  
(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 की अनुसूची II में-  
(क) राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर वेतन वाले पदों से संबंधित भाग-क में, तालिका में, प्रथम स्तंभ में आने वाली "हिमाचल प्रदेश" प्रविष्टि और द्वितीय स्तंभ की संगत प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

## "हिमाचल प्रदेश

पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश (पुलिस बल के प्रमुख)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
अपर पुलिस महानिदेशक, एसवी & एसीबी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर पुलिस महानिदेशक, (सीआईडी)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर पुलिस महानिदेशक, कानून और व्यवस्था	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र पुलिस और प्रशिक्षण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
पुलिस महानिरीक्षक, (अपराध)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक, एसवी और एसीबी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक, कानून और व्यवस्था	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अकादमी, प्रशिक्षण और अनुसंधान	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक, कल्याण और प्रशासन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक, रेंज	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक, सी एवं टीएस लॉजिस्टिक्स	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
प्रधानाचार्य - पीटीसी (दारोह)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए
पुलिस उप महानिरीक्षक (अपराध)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए
पुलिस उप महानिरीक्षक (आसूचना और सुरक्षा)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए
पुलिस उप महानिरीक्षक, एसवी और एसीबी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए
पुलिस उप महानिरीक्षक, टीटी एंड आर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए
पुलिस उप महानिरीक्षक, एनसीबी (सीआईडी)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए
पुलिस उप महानिरीक्षक, साइबर अपराध (सीआईडी)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए
पुलिस उप महानिरीक्षक, ईओडब्ल्यू	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 ए"

(ख) राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों जिसके अंतर्गत वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्तों वाले पद भी शामिल हैं, से संबंधित भाग-ख में 'हिमाचल प्रदेश' के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के लिए तालिका में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, -

पुलिस सहायक महानिरीक्षक, मुख्यालय
पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (अपराध शाखा)
पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशेष शाखा)
पुलिस अधीक्षक, एसवी और एसीबी जोन

पुलिस अधीक्षक, किन्नौर
पुलिस अधीक्षक, शिमला
पुलिस अधीक्षक, सिरमौर
पुलिस अधीक्षक, सोलन
पुलिस अधीक्षक, चंबा
पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा
पुलिस अधीक्षक, ऊना
पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर
पुलिस अधीक्षक, मंडी
पुलिस अधीक्षक, कुल्लू
पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर
पुलिस अधीक्षक, लाहौल एवं स्पीति
कमांडेंट, बटालियन, जंगा
कमांडेंट, बटालियन, धर्मशाला
कमांडेंट, बटालियन, पानदोह
कमांडेंट, बटालियन, ऊना
कमांडेंट, चौथी आईआर बटालियन, जंगल बेरी, हमीरपुर
कमांडेंट, पांचवी आईआर बटालियन, महिला बटालियन, बस्सी, बिलासपुर
कमांडेंट, छठी आईआर बटालियन, कोलार जिला सिरमौर
पुलिस अधीक्षक, जिला बद्दी
पुलिस अधीक्षक, (साइबर अपराध) सी.आई.डी.
पुलिस अधीक्षक, कानून एवं व्यवस्था पुलिस मुख्यालय
पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस नूरपुर

[फा. सं. 11052/06/2023- अ.भा.से.-II (ख)]

भूपिंदर पाल सिंह, अवर सचिव

नोट: मुख्य विनियम दिनांक 23 सितंबर, 2016 को सा.का.नि. संख्या 910 अ द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किए गए थे।

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	तारीख	क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	तारीख
1.	84अ	01.02.17	14.	781अ	21.12.20
2.	82अ	01.02.17	15.	36अ	21.01.2022
3.	487अ	19.05.17	16.	41अ	24.01.2022
4.	646अ	27.06.17	17.	186अ	09.03.2022
5.	845अ	06.07.17	18.	446(अ)	13.06.2022

6.	1001अ	08.08.17	19.	474(अ)	24.06.2022
7.	1141अ	08.09.17	20.	627(अ)	12.08.2022
8.	1535अ	21.12.17	21.	639(अ)	18.08.2022
9.	1605अ	29.12.17	22.	743(अ)	29.09.2022
10.	198अ	28.02.18	23.	97(अ)	14.02.2023
11.	1037अ	16.10.18	24.	134(अ)	24.02.2023
12.	1041अ	18.10.18	25	556(अ)	26.07.2023
13.	1138 अ	26.11.18			

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

**(Department of Personnel and Training)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2024

**G.S.R. 252(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of **Himachal Pradesh** hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 2016, namely: —

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Amendment Rules, 2024.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Indian Police Service (Pay) Rules, 2016, in schedule II—
  - (a) In Part A relating to posts carrying pay above the senior scale of pay of the Indian Police Service under the State Governments, in the table, for the entry “**Himachal Pradesh**” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

**“Himachal Pradesh**

Director General of Police, Himachal Pradesh (Head of Police Force)	Level 17 in Pay matrix
Additional Director General of Police, SV & ACB	Level 15 in Pay matrix
Additional Director General of Police, (CID)	Level 15 in Pay matrix
Additional Director General of Police, Law & Order	Level 15 in Pay matrix
Additional Director General of Police, Armed Police & Training	Level 15 in Pay matrix
Inspector General of Police, (Crime)	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police, SV & ACB	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police, Law & order	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police, Intelligence	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police, Armed Police	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police, Police Academy, Training and Research	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police, Welfare & Administration	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police, Ranges	Level 14 in Pay matrix

Inspector General of Police, C & TS Logistics	Level 14 in Pay matrix
Principal - PTC (Daroh)	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police (Crime)	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police (Intelligence & security)	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police, SV & ACB	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police, TT & R	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police, NCB (CID)	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police, Cybre Crime (CID)	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police, EOW	Level 13A in Pay matrix”

- (b) in Part B relating to posts carrying pay in the senior scale of the Indian Police Service under the State Governments including posts carrying special allowance in addition to pay, for the entries occurring under ‘Himachal Pradesh the following shall be substituted in the table,—

“Asstt. Inspector General of Police, HQ
Superintendent of Police, CID (Crime Branch)
Superintendent of Police, CID (Special Branch)
Superintendent of Police, SV & ACB Zones
Superintendent of Police, Kinnaur
Superintendent of Police, Shimla
Superintendent of Police, Sirmour
Superintendent of Police, Solan
Superintendent of Police, Chamba
Superintendent of Police, Kangra
Superintendent of Police, Una
Superintendent of Police, Hamirpur
Superintendent of Police, Mandi
Superintendent of Police, Kullu
Superintendent of Police, Bilaspur
Superintendent of Police, Lahaul & Spiti
Commandant, Bn. Junga
Commandant, Bn. Dharamsala
Commandant, Bn. Pandoh
Commandant, Bn. Una
Commandant, 4 <sup>th</sup> IR Bn., Jungle Beri, Hamirpur
Commandant, 5 <sup>th</sup> IR Bn., Mahila Bn. Bassi, Bilaspur
Commandant, 6 <sup>th</sup> IR Bn., Kolar Distt. Sirmour
Superintendent of Police, District Baddi
Superintendent of Police, (Cyber Crime) CID
Superintendent of Police, Law & Order PHQ
Superintendent of Police, Police District Nurpur”

[F. No. 11052/06/2023- AIS-II (B)]

BHUPINDER PAL SINGH, Under Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number GSR 910 € dated the 23<sup>th</sup> September, 2016.

<b>Sl.No.</b>	<b>GSR No.</b>	<b>Date</b>	<b>Sl No.</b>	<b>GSR No.</b>	<b>Date</b>
<b>1.</b>	84E	01.02.17	<b>14.</b>	781E	21.12.20
<b>2.</b>	82E	01.02.17	<b>15.</b>	36E	21.01.2022
<b>3.</b>	487E	19.05.17	<b>16.</b>	41E	24.01.2022
<b>4.</b>	646E	27.06.17	<b>17.</b>	186E	09.03.2022
<b>5.</b>	845E	06.07.17	<b>18.</b>	446(E)	13.06.2022
<b>6.</b>	1001E	08.08.17	<b>19.</b>	474(E)	24.06.2022
<b>7.</b>	1141E	08.09.17	<b>20.</b>	627(E)	12.08.2022
<b>8.</b>	1535E	21.12.17	<b>21.</b>	639(E)	18.08.2022
<b>9.</b>	1605E	29.12.17	<b>22.</b>	743(E)	29.09.2022
<b>10.</b>	198E	28.02.18	<b>23.</b>	97(E)	14.02.2023
<b>11.</b>	1037E	16.10.18	<b>24.</b>	134(E)	24.02.2023
<b>12.</b>	1041E	18.10.18	<b>25</b>	556(E)	26.07.2023
<b>13.</b>	1138 E	26.11.18			